

भारत का राजपत्र
The Gazette of India.

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 288]

नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 18, 1973/श्रावण 27, 1895

No 288]

NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 18, 1973/SRAVANA 27, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 2nd August 1973

S.O. 445(E).—In the English version of the Notification No. 352(E), dated the 23rd June, 1973, published in the Gazette of India Extraordinary dated the 25th June, 1973, the following printing mistakes may be rectified:—

1. In the seventh line, insert the figure "4" between the words "Column" and "thereof".
2. In the Schedule of tariff values for 1973-74;—
 - (i) Against item No. 8, under Column No. 3, in the third line relating to that item, omit the word "Thousand";
 - (ii) Against item No. 8, under Column No. 3, in the fourth line relating to that item omit the word "Quintal";
 - (iii) Against item No. 8, under Column No. 3, in the fifth line relating to the sub-item Coconuts, read "Thousand" for the existing entry;
 - (iv) Against item No. 8, under Column No. 3, in the sixth line relating to the sub-item Raisins, read "Quintal" in place of the existing entry;
 - (v) Against item No. 15, under Col. No. 2, omit "," after "Goat";

- (vi) Against item No. 16, under the sub-head 'Cardamom', for the sub-item "(i) Bi (ELAICHA)" read "(i) Big (ELAICHA)";
- (vii) At page 1066 of the Gazette, Against item No. 17 relating to 'Tobacco, unmanufactured', under Column No. 2,—
- in the ninth line from below, insert ",", after "C(1-4)";
 - in the sixth line from below, read "AT," for "A.T.";
 - in the fourth line from below insert ",", after "F(1-4)" and omit the full stop after the letter "S";
 - in the second line from below, add the figure "4," at the beginning of the line; and ",", after "4(c)" and omit "." at end of the line;
 - in the last line for "Gradest LBYi 2," read "Grades, LBY2," and for "BB," read "B,";
- (viii) At page 1067 of the Gazette, under Column No. 2:—
- in the second line from above, omit ",", at the end of the line;
 - in the third line from above, omit ",", after "Class IV" and insert ",", after "Grades";
 - in the fourth line from above omit ",", after "Dark"; and
- (ix) At page 1067 of the Gazette, against the first line, under Column No. 3 read "Kilogram" and under Column No. 4 read "4.00".

[No. 4-1/73-Econ. Py.]

K. N. JAUHARI, Under Secy.

कृषि मंत्रालय**(कृषि विभाग)****शुद्धि-पत्र**

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 1973

एस० ओ० 445(अ).—भारत सरकार के 25 जून, 1973 के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का०आ० 352(अ), दिनांक 23 जून, 1973 के हिन्दी रूपान्तर में निम्नलिखित सुद्घन अशुद्धियों में सुद्धार कर लिया जाये :—

- हिन्दी रूपान्तर की चौथी पंक्ति में "को" के स्थान पर "को" पढ़िये ।
- 1973-74 के लिए टैरिफ मूल्यों की अनुसूची में :—
 - मद संख्या 7 के अन्तर्गत उपमद संख्या 4 जो फिमयाज से सम्बन्धित है, के सामने, स्तम्भ 4 में "220.00" के स्थान पर "2200.00" पढ़िये ।
 - मद संख्या 7 के अन्तर्गत उपमद संख्या 5 और 6 को स्तम्भ 2 के नीचे पढ़िये ।
 - मद संख्या 7, उपमद संख्या 5(क) के अन्तर्गत "चमैरहित" के स्थान पर "चर्म-रहित" पढ़िये ।
 - मद संख्या 7, उपमद संख्या 6 के अन्तर्गत "मछली" के स्थान पर "मछली" पढ़िये ।
 - मद संख्या 10, उपमद "गो-खाले" के अन्तर्गत:—
 - (क) "बछड़" के स्थान पर "बछड़े" पढ़िये ।

- (ख) "असेनिकृत" के स्थान पर "आसेनिकृत" पढ़िये ।
- (6) मद संख्या 15 के अन्तर्गत उपमद 'बकरी की खाल' के मामले, स्तम्भ 4 में "13.00" के स्थान पर "10.00" पढ़िये और अगली उपमद में "भड़" के स्थान पर "भेड़" पढ़िये ।
- (7) मद संख्या 17 के अन्तर्गत
- (क) दूसरी पंक्ति में "क्योस्ड" के स्थान पर "क्योरड" पढ़िये ।
 - (ख) तीसरी पंक्ति के अंत में "," पढ़िये ।
 - (ग) चौथी पंक्ति में "ए एफ (सामान्य)" के पश्चात् "," पढ़िये ।
 - (घ) पांचवीं पंक्ति में "एएम (विशेष)" के स्थान पर "ए एस (विशेष)," पढ़िये ।
 - (ङ) सातवीं पंक्ति में "द्वितीय वर्ग श्रेणी" के पश्चात् "," पढ़िये, "एफ" के बाद "," हटा दीजिये, "(1-4)" के बाद "," पढ़िये तथा "एम (1-4)" के बाद "," पढ़िये ।
 - (च) दसवीं पंक्ति में "गल" के पश्चात् छपा हुआ बिन्दु हटा दीजिये ।
 - (छ) तेहरवीं पंक्ति में "बी(सी), के स्थान पर "बी(सी)" पढ़िये ।
- (8) मद संख्या 17 के अन्तर्गत राजपत्र के पृष्ठ 1070'2 पर,
- (क) पहली पंक्ति में "नीन" के स्थान पर "नोन" पढ़िये ।
 - (ख) दूसरी पंक्ति में "वाले" के स्थान पर "वाला" पढ़िये ।
 - (ग) तीसरी पंक्ति में "पश्चिमी" के स्थान पर, "पश्चिमी" पढ़िये ।

[सं० 4-1/73-अर्थ नीति]

के० एन० जौहरी, अवसर सचिव ।

